



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102024-258036
CG-DL-E-18102024-258036

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4175]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 16, 2024/आश्विन 24, 1946

No. 4175]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 16, 2024/ASVINA 24, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4539(अ).—केन्द्र सरकार को लोक हित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिहार राज्य में पारादीप (ओडिशा) से नुमालीगढ (असम) तक वाया सिलीगुडी (पश्चिम बंगाल) कच्चा तेल परिवहन के लिए नुमालीगढ रिफाइनरी लिमिटेड के द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिये; और केन्द्र सरकार को यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है तथा जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये;

अतः अब केन्द्र सरकार पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है; कोई व्यक्ति, जो संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, इस अधिसूचना का भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशन (राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ जन साधारण को उपलब्ध करादी जाती है) से इक्कीस (21) दिनों के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर पुरनियां, बिहार सरकार को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकते हैं।

अनुसूची

राज्य:बिहार

क्रम संख्या	जिला	अंचल	मौजा का नाम एवं थाना संख्या	खेसरा संख्या	क्षेत्रफल		
					हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कटिहर	बरारी	बैसागोविंद-177	201	00	06	10
				202	00	04	00
				204	00	01	90
1	पुरनियां	कृत्यानन्द नगर	कजहा-30	5588	00	03	90
				5587	00	00	80
				5870	00	00	40
				5700	00	00	50
2	पुरनियां	कृत्यानन्द नगर	बिठनौली-24	7099	00	14	20
				7119	00	02	50
				7135	00	05	90
				7134	00	03	00
				7131	00	01	80
				7129	00	01	80
3	पुरनियां	कृत्यानन्द नगर	शिशवा-23	326	00	00	30
				333	00	00	50
				332	00	03	80
				330	00	04	50
4	पुरनियां	बैसा	मिर्जापुर-42	1572	00	08	90
				1573	00	06	10
				1567	00	13	50
				1438	00	01	00
				1475	00	04	50
5	पुरनियां	जलालगढ	हफिनया-196	150	00	07	10
				148	00	01	00
6	पुरनियां	जलालगढ	हफिनया-197	60	00	05	00
				59	00	07	50
				56	00	00	40

1	किशनगंज	कोचाधामन	बड़ीजान पोठीमारीजली-378	1438	00	00	40
				1423	00	00	30
				1419	00	00	70
				1417	00	04	30
				1415	00	05	90
				1413	00	01	10
				1582	00	00	50
				1583	00	08	10
				1584	00	01	00
				2237	00	05	00
				2238	00	00	60
				2239	00	06	80
2	किशनगंज	बहादुरगंज	पटकोइकला -21	28	00	00	20
				9	00	01	80
				7	00	08	50
				6	00	02	20
3	किशनगंज	बहादुरगंज	मुरमाला-22	461	00	13	80
				462	00	00	70
				463	00	01	40
				472	00	02	90
				473	00	02	90
				479	00	01	00
				478	00	03	40
				477	00	04	50
				433	00	09	10
	किशनगंज	बहादुरगंज	मुरमाला-22	432	00	09	70
				544	00	09	90
				545	00	00	20
				429	00	02	00
				547	00	00	40
				428	00	17	30
				551	00	00	80
				552	00	01	00
				427	00	05	30

				425	00	01	00
				426	00	03	90
				445	00	01	10
				121	00	08	20
				138	00	07	60
				137	00	02	60
				139	00	04	00
				140	00	02	60
				141	00	06	20
				143	00	14	50
				142	00	02	60
4	किशनगंज	ठाकुरगंज	दुधौरी-75	1613	00	00	20
				1612	00	01	00
				1582	00	00	40
				1583	00	03	30
				1584	00	01	50
				1585	00	00	20
				1569	00	01	80
				2074	00	10	30
s	किशनगंज	ठाकुरगंज	दुधौरी-75	2080	00	00	60
				2081	00	05	50

[फा. सं. फा. सं. आर-11025(14)/3/2021-ओआर-I/ई-38524]

शशि शेखर सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2024

S.O. 4539(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Crude Oil from Paradip (Odisha) to Numaligarh (Assam) Via Siliguri (West Bengal) a pipeline should be laid in State of Bihar by Numaligarh Refinery Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in Land under which the said pipelines are proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed here to;

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the annexed schedule may, within twenty-one (21) days from the date of publication of this notification in the Extraordinary Gazette of India (copies of the notification published in the gazette would be made available to the general public), object in writing to the Acquisition of the Right of User therein for laying of the pipelines under the land to Competent Authority, Deputy Collector Land Reforms, Purnia, Govt of Bihar.

SCHEDULE-1**State: Bihars**

Sl. No.	District	Anchal	Mouza Name & Thana No.	Plot No.	Area		
					Hec.	Are	Sq. Mtr
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Katihar	Barari	Baisagobind-177	201	00	06	10
				202	00	04	00
				204	00	01	90
1	Purnia	Krityanand Nagar	Kajaha-30	5588	00	03	90
				5587	00	00	80
				5870	00	00	40
				5700	00	00	50
2	Purnia	Krityanand Nagar	Baithnauli-24	7099	00	14	20
				7119	00	02	50
				7135	00	05	90
				7134	00	03	00
				7131	00	01	80
	Purnia	Krityanand Nagar	Baithnauli-24	7129	00	01	80
4	Purnia	Krityanand Nagar	Shishwa-23	326	00	00	30
				333	00	00	50
				332	00	03	80
				330	00	04	50
5	Purnia	Baisa	Mirzapur-42	1572	00	08	90
				1573	00	06	10
				1567	00	13	50
				1438	00	01	00
				1475	00	04	50

6	Purnia	Jalalgarh	Hafaniya-196	150	00	07	10
				148	00	01	00
7	Purnia	Jalalgarh	Hafaniya-197	60	00	05	00
				59	00	07	50
				56	00	00	40
1	Kishanganj	Kochadhaman	Vardijan Pauthi Marijali-378	1438	00	00	40
				1423	00	00	30
				1419	00	00	70
				1417	00	04	30
				1415	00	05	90
				1413	00	01	10
				1582	00	00	50
				1583	00	08	10
				1584	00	01	00
				2237	00	05	00
				2238	00	00	60
				2239	00	06	80
2	Kishanganj	Bahadurganj	Patkoikala-21	28	00	0	20
				9	00	01	80
				7	00	08	50
				6	00	02	20
3	Kishanganj	Bahadurganj	Murmala-22	461	00	13	80
				462	00	00	70
	Kishanganj	Bahadurganj	Murmala-22	463	00	01	40
				472	00	02	90
				473	00	02	90
				479	00	01	00
				478	00	03	40

				477	00	04	50
				433	00	09	10
				432	00	09	70
				544	00	09	90
				545	00	00	20
				429	00	02	00
				547	00	00	40
				428	00	17	30
				551	00	00	80
				552	00	01	00
				427	00	05	30
				425	00	01	00
				426	00	03	90
				445	00	01	10
				121	00	08	20
				138	00	07	60
				137	00	02	60
				139	00	04	00
				140	00	02	60
				141	00	06	20
				143	00	14	50
				142	00	02	60
4	Kishanganj	Thakurganj	Dudhauri-75	1613	00	00	20
				1612	00	01	00
				1582	00	00	40
				1583	00	03	30
				1584	00	01	50
				1585	00	00	20
				1569	00	01	80

	Kishanganj	Thakurganj	Dudhauri-75	2074	00	10	30
				2080	00	00	60
				2081	00	05	50

[File No. R-11025(14)/3/2021-OR-I/E-38524]

SHASHI SHEKHAR SINGH, Under Secy.